

Combined Higher Secondary Level Examination 2024 Tier I

| | |
|------------|-----------------------|
| Venue Name | |
| Exam Date | 02/07/2024 |
| Exam Time | 5:15 PM - 6:15 PM |
| Subject | CHSL Exam 2024 Tier I |

Q.1 Select the most appropriate article to fill in the blank.
_____ bed you sleep in is broken.

- Ans 1. A
 2. The
 3. On
 4. An

Q.2 Identify the grammatical error in the following sentence and select the correct tense from the options given below.

I have met my friend yesterday.

- Ans 1. had been meeting
 2. have been meeting
 3. was meeting
 4. met my friend

Q.3 Select the option that will improve the given sentence by using the most appropriate verb.

That Macbook belong to Xavier.

- Ans 1. That Macbook belongs to Xavier.
 2. That Macbook is belong to Xavier.
 3. That Macbook is belonged to Xavier.
 4. That Macbook belonging to Xavier.

Q.4 The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contains a grammatical error.

The teacher was / taken back by / the audacity of / the new student.

A B C D

- Ans 1. C
 2. A
 3. D
 4. B



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Comprehension:

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

It is generally (1)_____ that the methodology of teaching-learning is the concern of teachers only. Learners have (2) _____ or nothing to do with it. But this is not true. The teaching-learning (3) _____ are concerns of learners as well. Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more (4) _____ for the learners of physical education. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area, rather than (5) _____ studied it.

SubQuestion No : 5

Q.5 Select the most appropriate option to fill in blank no. 1.

Ans 1. believed

2. wished

3. hoped

4. planned

Comprehension:

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

It is generally (1)_____ that the methodology of teaching-learning is the concern of teachers only. Learners have (2) _____ or nothing to do with it. But this is not true. The teaching-learning (3) _____ are concerns of learners as well. Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more (4) _____ for the learners of physical education. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area, rather than (5) _____ studied it.

SubQuestion No : 6

Q.6 Select the most appropriate option to fill in blank no. 2.

Ans 1. light

2. little

3. minute

4. sparse

Comprehension:

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

It is generally (1)_____ that the methodology of teaching-learning is the concern of teachers only. Learners have (2) _____ or nothing to do with it. But this is not true. The teaching-learning (3) _____ are concerns of learners as well. Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more (4) _____ for the learners of physical education. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area, rather than (5) _____ studied it.

SubQuestion No : 7

Q.7 Select the most appropriate option to fill in blank no. 3.

Ans 1. breaks

2. forms

3. methods

4. customs



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Comprehension:

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

It is generally (1) _____ that the methodology of teaching-learning is the concern of teachers only. Learners have (2) _____ or nothing to do with it. But this is not true. The teaching-learning (3) _____ are concerns of learners as well. Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more (4) _____ for the learners of physical education. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area, rather than (5) _____ studied it.

SubQuestion No : 8

Q.8 Select the most appropriate option to fill in blank no. 4.

Ans 1. reference

2. relevance

3. consistency

4. recurrence

Comprehension:

In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank.

It is generally (1) _____ that the methodology of teaching-learning is the concern of teachers only. Learners have (2) _____ or nothing to do with it. But this is not true. The teaching-learning (3) _____ are concerns of learners as well. Knowing and understanding that how different subjects are taught are important for the learners of all subjects, but it has more (4) _____ for the learners of physical education. When we talk about you as learners of physical education, we mean that you have actually participated in the subject area, rather than (5) _____ studied it.

SubQuestion No : 9

Q.9 Select the most appropriate option to fill in blank no. 5.

Ans 1. merely

2. purely

3. hardly

4. entirely

Q.10 Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word in the given sentence.

The plot of the novel is very dull.

Ans 1. Diverting

2. Charming

3. Plodding

4. Riveting

Q.11 Select the most appropriate option that collocates with ‘wish’ to fill in the blank.

The genie asked Aladdin to _____ a wish.

Ans 1. take

2. tell

3. make

4. ask



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.12 Read the sentence carefully and select the most appropriate option to substitute the underlined part.

You can be sentenced for trespassing on someone else's property.

- Ans 1. conspiring against others
 2. leaving without permission
 3. showing unselfish devotion
 4. entering without permission

Q.13 Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select 'No improvement required'. We set up on the journey early in the morning.

- Ans 1. set off
 2. No improvement required
 3. set about
 4. set in

Q.14 Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence.

The wizard, while performing an item, accidentally set his own hat on fire and prompted the fire alarm to go on.

- Ans 1. the fire alarm to go away
 2. the fire alarm to go off
 3. the fire alarm to go under
 4. the fire alarm to go above

Q.15 Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word in the following sentence.

The upshot of the consultation with the doctor was an operation scheduled for the next week.

- Ans 1. Result
 2. Estimate
 3. Blame
 4. Cause

Q.16 Select the most appropriate synonym of the given word.

Remission

- Ans 1. Punishment
 2. Pardon
 3. Retribution
 4. Overlook

Q.17 Identify the incorrectly spelt word and select its correct spelling.

Maybe he wanted to make sure he didn't embarrese her.

- Ans 1. emberess
 2. shure
 3. embarrass
 4. sware



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.18 Select the most appropriate ANTONYM of the word given in the bracket to fill in the blank.

The State media houses present _____ (vociferous) views compared to private media.

- Ans 1. assertive
 2. political
 3. biased
 4. mild

Q.19 Select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence.

It has been a usual occurrence for a few days now.

- Ans 1. occurrence
 2. occurrence
 3. occerrence
 4. occurence

Q.20 Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence.

It will take two hours to walk across the forest.

- Ans 1. between
 2. through
 3. over
 4. away

Q.21 Select the most appropriate synonym of the underlined word.

Let us assume that we will do the job honestly.

- Ans 1. give
 2. take
 3. think
 4. allow

Q.22 Select the most appropriate meaning of the given idiom.

On its last legs

- Ans 1. Last choice
 2. Creeping on legs
 3. Slow movement
 4. In a bad condition

Q.23 Select the most appropriate ANTONYM of the underlined word in the given sentence.

Few people turned up to attend the tawdry promo of the new movie.

- Ans 1. Gawdy
 2. Elegant
 3. Inferior
 4. Showy



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.24 Select the most appropriate option to fill in the blank.

She could easily eat the _____ biryani by herself.

Ans 1. hall

2. hole

3. whole

4. haul

Q.25 Select the most appropriate idiomatic expression that can substitute the underlined segment in the given sentence.:

It feels like I made a promise of more than my ability when I promised to complete this worksheet in one day.

Ans 1. beat my brain out

2. bit off more than I could chew

3. beat the drum

4. burnt a hole in my pocket

Q.1 उस समूचय का चयन कीजिए जिसम.सां एं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समूचयों की सां एं संबंधित हैं।

(1 न दें: सां औं को उनके घटक अंकों में अलग-अलग किए बिना पूर्ण सां औं पर संि याएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सां 13 - सां 13 पर संि याएं जैसे 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग-अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संि याएं करने की अनुमति नहीं है।)

(18, 7, 119)

(11, 9, 90)

Ans 1. (17, 6, 102)

2. (13, 5, 58)

3. (16, 5, 65)

4. (12, 4, 44)

Q.2 उस शब्द-युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है।

(शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या/व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए।)

प्रसन्न : आनंदित

Ans 1. प्रगति : ठहराव

2. नम्र : भद्र

3. ईमानदार : भ्रामक

4. वफादार : विश्वासघात

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

SLE CXS ? WVU GHI

Ans 1. COR

2. OWG

3. HAP


4. MJG



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)


Q.4 उस विक. आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति X निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।




(X)

Ans


X 1.




X 2.



X 3.




✓ 4.



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

- Q.5** कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा?



Ans



- Q.6** JUSTICE शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में □ वथ त किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला पूँछला में कितने अक्षर होंगे?

Ans ✗ 1. 6

✓ 2. 4

✗ 3. 5

✗ 4. 7

- Q.7** यदि 'A' का अर्थ '÷', 'B' का अर्थ '×', 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$$11 \ B \ 11 \ D \ 68 \ A \ 4 \ C \ 4 = ?$$

Ans ✓ 1. 108

✗ 2. 104

✗ 3. 106

✗ 4. 102



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.8 दी गई शृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3, 10, 24, ?, 73, 108, 150, 199


Ans 1. 35

2. 30

3. 40

4. 45

Q.9 दपण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।




Ans 1. L37KMed

2. MedL37K

3. MedL37K

4. MedqL37K

Q.10 जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans 1. e 7 y 6 f R

2. e 7 y 6 f R

3. e 7 y 6 f R

4. R 6 f 7 y e

Q.11 यदि '+' और 'x' को आपस में बदल दिया जाए तथा '-' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में (?) के स्थान पर 1 आएगा?

$$90 - 10 \times 36 + 52 \div 49 = ?$$

Ans 1. 654

2. 567

3. 879

4. 1832



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

Q.12 निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

12 60 20 100 60 300 260 ?


- Ans 1. 1240
 2. 1280
 3. 1300
 4. 1160

Q.13 एक निश्चित तक का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 47 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 62 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से किसका संबंध 17 से है?

(1) न दें: साँ ओं को उनके घटक अंकों में अलग-अलग किए बिना पूर्ण साँ ओं पर संियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए साँ 13 - साँ 13 पर संियाएं जैसे 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग-अलग करने की ओर किर 1 और 3 पर गणितीय संियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

- Ans 1. 97
 2. 87
 3. 85
 4. 75

Q.14 नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



- Ans 1. 6
 2. 5
 3. 7
 4. 8

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर 1 आना चाहिए?

ECF, JHK, OMP, TRU, ?

- Ans 1. YVZ
 2. XYZ
 3. YWZ
 4. XWZ



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)


Q.16 तीन कथनों के बाद I, II . मांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे समान्यतः I त तो से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन/कथनों के अनुसार है/हैं।

कथन:

सभी आग, पानी है।
कुछ पानी, पी है।
कोई पी, वायु नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ आग, पी है।
निष्कर्ष (II): कुछ आग, वायु है।

- Ans 1. दोनों नि. र्ष (I) और (II) कथनों के अनुसार हैं।
 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) कथनों के अनुसार है।
 3. केवल निष्कर्ष (I) कथनों के अनुसार है।
 4. केवल निष्कर्ष (II) कथनों के अनुसार है।

Q.17 दर्पण को नीचे दर्शाएं अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



- Ans 1. 7 q R t ④ ट
 2. 7 p R ५ ④ ५
 3. 7 q R t ④ ट
 4. 7 q R t ④ ५

Q.18 उस अक्षर-समूह यु ॥ का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर-समूह यु ॥ में ॥ ॥ किए गए समान संबंध का सबसे आ निरूपण करता है।

GKI : MQO
CGE : IMK

- Ans 1. JOM: PUR
 2. HLJ: NRO
 3. LPN: RVT
 4. RUT: VZK

Q.19 शब्द FRAMED के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में ॥ वथ ॥ त किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएँ से दूसरे अक्षर और दाएँ से दूसरे अक्षर के बीच अँग्रेजी वर्णमाला भृखला में कितने अक्षर हैं?

- Ans 1. छ:
 2. आठ
 3. नौ
 4. सात







Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.20 यदि निम्नलिखित आकृति शृंखला को जारी रखना हो तो कौन-सी आकृति प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आनी चाहिए?



Ans



Q.21 यदि 'A' का अर्थ '÷', 'B' का अर्थ '×', 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$$95 \ B \ 8 \ D \ 12 \ A \ 2 \ C \ 16 = ?$$

Ans **1.** 710

2. 750

3. 730

4. 770

Q.22 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SORT' को '4698' लिखा जाता है और 'RUST' को '6429' लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 'O' को कैसे लिखा जाएगा?

Ans **1.** 6

2. 9

3. 4

4. 8



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.23 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BROW' को '7542' लिखा जाता है और 'WORM' को '7295' लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 'B' को कैसे लिखा जाएगा?

- Ans 1. 9
 2. 4
 3. 2
 4. 7

Q.24 निम्नलिखित त्रिभुज के अक्षर-समूहों में से तीन अक्षर-समूह एक निम्न प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन-सा अक्षर-समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है?

(I न दें: असंगत अक्षर-समूह, उस अक्षर-समूह में □ जनों/स्वरों की सांया उनके प्राथान पर आधार त नहीं है)

- Ans 1. MPR
 2. BEG
 3. JMN
 4. TWY

Q.25 $A + B'$ का अर्थ है 'A, B का भाई है।'

'A - B' का अर्थ है 'A, B की बहन है।'

'A \times B' का अर्थ है 'A, B के पिता है।'

'A \div B' का अर्थ है 'A, B की माँ है।'

ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए। त करें कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि 'P, S के पिता के पिता है'?

- Ans 1. P + Q \div R \times S
 2. P + Q - R \div S
 3. P - Q + R \div S
 4. P \times Q \times R + S

Q.1 एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के b% अंडे ओर मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और तब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं। निम्न में से b का मान किसके बराबर है?

- Ans 1. 100
 2. 20
 3. 500
 4. 10

Q.2 फ्री भुज की भुजाएं 3 cm, 4 cm और 5 cm हैं। 5 cm लंबाई वाली भुज पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 1 त कीजिए।

- Ans 1. 3.5 cm
 2. 1.4 cm
 3. 2.2 cm
 4. 2.4 cm



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE


CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

- Q.3** दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

बार ग्राफ में 2012 से 2017 तक छ. वर्षों की अवधि में तीन कंपनियों A, B और C द्वारा निश्चित रसोई

उपकरणों के उत्पादन (लाख में) को दर्शाया गया है।



वर्ष 2012 से 2017 की दी गई अवधि में कंपनी B और C के संयुक्त औसत उत्पादन का 80%, कंपनी A के औसत उत्पादन के 90% से कितना प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) अधिक/कम है?

- Ans**
- 1. 19% कम
 - 2. 19% अधिक
 - 3. 21% अधिक
 - 4. 21% कम

- Q.4** निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तालिका में एक राज्य में EMCET परीक्षा में जिलेवार उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण (हजार में) होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है।

| वर्ष | A | B | C | D | E | F |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | उपस्थित/उत्तीर्ण | उपस्थित/उत्तीर्ण | उपस्थित/उत्तीर्ण | उपस्थित/उत्तीर्ण | उपस्थित/उत्तीर्ण | उपस्थित/उत्तीर्ण |
| 2014 | 40/21 | 50/35 | 60/29 | 50/37 | 45/22 | 48/32 |
| 2015 | 50/26 | 60/38 | 60/42 | 40/26 | 35/22 | 45/19 |
| 2016 | 55/42 | 35/22 | 48/26 | 50/30 | 55/27 | 60/19 |

वर्ष 2016 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत क्या है (केवल दो दशमलव स्थान तक)?

- Ans**
- 1. 44.72%
 - 2. 52.82%
 - 3. 55.18%
 - 4. 54.78%

- Q.5** दो ऊँ दवारों के बीच एक चुनाव में एक ऊँ दवार को कुल वैध मतों के 65% मत। प्त हुए। 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल सा 7,500 थी, तो दूसरे ऊँ दवार को मिले वैध मतों की सा _____ थी।

- Ans**
- 1. 1,700
 - 2. 4,300
 - 3. 1,900
 - 4. 2,100



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.6 $\triangle PQR$ में, $PR = 10 \text{ cm}$ है। PT की लंबाई T तकीजिए, जहाँ $ST \parallel QR$ है। दिया गया है कि $PS = 6 \text{ cm}$ और $QS = 14 \text{ cm}$ है।

Ans 1. 4 cm

2. 3 cm

3. 2 cm

4. 1.5 cm

Q.7 कुछ धनराशि को रवि, रीता और राहुल के बीच इस अनुपात में बांटिए कि 5 (रवि का हिस्सा) = 3 (रीता का हिस्सा) = 11 (राहुल का हिस्सा) हो। रवि : रीता : राहुल की धनराशि का अनुपात _____ के बराबर है।

Ans 1. 11 : 33 : 15

2. 5 : 11 : 3

3. 11 : 5 : 3

4. 33 : 55 : 15

Q.8 एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹1,800 है। यदि 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?

Ans 1. ₹7,000

2. ₹11,000

3. ₹9,000

4. ₹8,000

Q.9 क्रमशः 310 m और 330 m लंबी दो रेलगाड़ियां एक-दूसरे से 160 m की दूरी पर हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 130 km/h और 158 km/h की चाल से एक-दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक-दूसरे को कितने समय में (सेकंड में) पार करेगी?

Ans 1. 18

2. 10

3. 8

4. 12

Q.10 10 m व्यास वाले एक गोले के बाह्य पृष्ठ को $\frac{80}{\pi} \text{ per m}^2$ की दर से पेंट किया गया। पेंटिंग की लागत कितनी है?

Ans 1. ₹4,000

2. ₹8,000

3. ₹9,000


4. ₹6,000



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.11 दिए गए पाई-चार्ट पांच अलग-अलग महाविद्यालयों A, B, C, D और E में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के वितरण को दर्शाते हैं।



महाविद्यालय A और B के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन रहे हैं?

- Ans 1. 7,052
 2. 5,987
 3. 6,993
 4. 4,520

Q.12 निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए।

$$\frac{3}{2} \times \frac{11}{5} \div \left(\frac{25}{44} \times \frac{11}{5} \right) \div \frac{33}{15} = ?$$

- Ans 1. $\frac{6}{5}$
 2. $\frac{5}{6}$
 3. $\frac{2}{3}$
 4. $\frac{1}{2}$

Q.13 A, B और C एक काम को . मश: 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा?

- Ans 1. 4 दिन
 2. 3 दिन
 3. 6 दिन
 4. 5 दिन



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.14 एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का $\frac{4}{13}$ भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च करता है, लेकिन प्रति माह Rs.6,300 बचाता है, जो कि भोजन और पर वहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। उसकी मासिक आय (Rs. में) कितनी है?

- Ans 1. 70,000
 2. 72,000
 3. 67500
 4. 63000

Q.15 एक बेलन की ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात 6 : 7 है और इसका आयतन 792 cm^3 है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना cm^2 में कीजिए।

- Ans 1. 490
 2. 264
 3. 226
 4. 262

Q.16 428 पौं वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है?

- Ans 1. 1176
 2. 2000
 3. 1500
 4. 988

Q.17 यदि रेखाओं $x + y = 2$ और $2x - y = 1$ का प्रतिच्छेद बिंदु $y = Kx + 5$ पर स्थित है, तो K का मान ज्ञात कीजिए।

- Ans 1. 3
 2. 4
 3. -3
 4. -4

Q.18

यदि $\sqrt{13} \sin \theta = 2$ है, तो $\frac{3 \tan \theta + \sqrt{13} \sin \theta}{\sqrt{13} \cos \theta - 3 \tan \theta}$ का मान ज्ञात कीजिए।


- Ans 1. 4
 2. 3
 3. 2
 4. 0



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

Q.19 दिया गया लाइन ग्राफ पिछले वर्षों म.कंपनी X और Z ने निर्मित सूटरों की संख्या (हजार में) दर्शाता है।



संदर्भ: Number of scooters (in thousands) – सूटरों की संख्या (हजार में), Number of scooters manufactured (in thousands) by companies X and Z, over the years- पिछले वर्ष में कंपनी X और Z ने निर्मित सूटरों की संख्या (हजार में)

दी गई अवधि में कंपनी X ने निर्मित सूटरों की औसत संख्या कितनी है?

- Ans 1. 256000
 2. 213000
 3. 126500
 4. 116500

Q.20 एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की वार्षिक रेट दर पर साधारण रेट पर 4 वर्ष में ₹6,600 हो जाती है। वह धनराशि है?

- Ans 1. ₹4,400
 2. ₹6,000
 3. ₹3,300
 4. ₹5,500

Q.21 L और M क्रमशः फ्रेज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं, और BC = 18 cm है। यदि LM || BC है, तो LM की लंबाई (cm में) है।

- Ans 1. 9
 2. 12
 3. 3
 4. 6

Q.22 स्वरूप को ₹1,600 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी के लिए दो ऑफर दिए जाते हैं। या तो वह 20% की दो क्रमिक कूट ले सकता है, या एक के बाद एक 30% और 10% की दो कूट ले सकता है। यदि स्वरूप उनमें से बेहतर योजना का चुनाव करता है, तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है?

- Ans 1. ₹35
 2. ₹16
 3. ₹30
 4. ₹22



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.23 जून में, रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए ₹5,000, 2 दिनों के लिए ₹20,000 और 3 दिनों के लिए ₹1,500 है। जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस (₹ में) कितना है?

- Ans 1. 5200
 2. 6000
 3. 5575
 4. 5650

Q.24 $\triangle EFG$ में, $XY \parallel FG$ है, चतुर्भुज $XFGY$ का क्षेत्रफल = 44 m^2 है। यदि $EX : XF = 2 : 3$ है, तो $\triangle EXY$ का क्षेत्रफल (m^2 में) T त कीजिए।

- Ans 1. 9.46
 2. 8.10
 3. 8.38
 4. 7.28

Q.25 $\triangle ABC$ में भुजा BC के समांतर सीधी रेखा, AB और AC से क्रमशः बिंदु P और Q पर मिलती है। यदि $AP = QC$ है, AB की लंबाई 12 cm है और AQ की लंबाई 2 cm है, तो CQ की लंबाई (cm में) कितनी होगी?

- Ans 1. 2
 2. 6
 3. 4
 4. 3

Q.1 ली बाई राष्ट्रीय शारीर क शिक्षा संस्थान (Lakshmi Bai National Institute of Physical Education - LNIPE) _____ में था त है।

- Ans 1. पंजाब
 2. उ. र. देश
 3. हरयाणा
 4. महाप्रदेश

Q.2 माइक्रो सॉफ्ट पावर पॉइंट (Microsoft PowerPoint) में, प्रेजेट शन में नई। इड जोड़ने (insert) के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन। है?

- Ans 1. Ctrl + N
 2. Ctrl + D
 3. Ctrl + I
 4. Ctrl + M

Q.3 कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन-सी शैली राग की सबसे सरल रचना है?

- Ans 1. पाड़ा
 2. कीर्तनम्
 3. गीतम्
 4. वर्णम्



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.4 नि. लिख त में से किसने लोकी यतेलुगु देशभू गीत 'देसामुनु प्रेमिचुमा , मंची आ दी पंचुमा ' लिखा है, जिसका अर्थ है 'राष्ट्र से प्रेम करो, आ ई को विकसित करो (Love the nation, grow the goodness)'?

Ans 1. गुरजादा अप्पाराव (Gurajada Apparao)

2. बैरा पोताना (Bammerla Potana)

3. गोपाराजू रामचं. राव (Goparaju Ramachandra Rao)

4. कृष्णदेवराय (Sri Krishnadevaraya)

Q.5 सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान उभरी गोलार्ध में सबसे छठ रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट स-आकार (cross-shaped) का तारामंडल है:

Ans 1. सिंहस (Cygnus)

2. पेगसस (Pegasus)

3. शर्मि (Cassiopeia)

4. सप्तरिंगमंडल (Ursa Major)

Q.6 किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्येक करों सहित एक देश के निवासियों। रा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर _____ कहलाता है।

Ans 1. सकल घरेलू आद (GDP)

2. निवल घरेलू आद (NDP)

3. निवल राष्ट्रीय आद (NNP)

4. सकल राष्ट्रीय आद (GNP)

Q.7 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है?

Ans 1. चम्फाई (Champhai)

2. सेरछिप (Serchhip)

3. इडुक्की (Idukki)

4. एर्नाकुलम (Ernakulam)

Q.8 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, रो _____ के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है?

Ans 1. मध्य प्रदेश और बिहार

2. हिमाचल प्रदेश और बिहार

3. हिमाचल प्रदेश और मेघालय

4. उपर प्रदेश और बिहार

Q.9 भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली दो विषम युग्मी जी फल मध्यों के बीच एक संकर अंतर (BBEE X BbEe) में, बीबीईई जीनोटाइप (BBEE genotype) प्रत करने की प्रियता होगी?

Ans 1. 1/16

2. 1/2

3. 1/4

4. 1/8

Q.10 संविधान के पचासवें संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था?

Ans 1. अनुच्छेद 56

2. अनुच्छेद 99

3. अनुच्छेद 78

4. अनुच्छेद 33



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

CLICK HERE

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.11 भारतीय तंत्रता का प्रथम युद्ध (सैनिक विजय) कब शुरू हुआ था?

Ans 1. 1839

2. 1857

3. 1819

4. 1887

Q.12 किस फैसले में सब च्वायलय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विभाग किया और कहा कि 'शिक्षा' का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है?

Ans 1. मोहिनी जैन बनाम कनाटक राज्य

2. मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य

3. नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

4. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

Q.13 _____ ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को 'संविधान की आवाज' कहा है।

Ans 1. डॉ बीआर अडोडकर

2. जवाहर लाल नेहरू

3. बाल गंगाधर तिलक

4. लाला लाजपत राय

Q.14 बाली यात्रा, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है?

Ans 1. बिहार

2. असम

3. ओडिशा

4. पश्चिम बंगाल

Q.15 निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है?

Ans 1. चंदेल

2. परमार

3. चाहमान

4. गहड़वाल

Q.16 फिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी?

Ans 1. समृद्ध अर्थव्यवस्था

2. स्वतंत्र अर्थव्यवस्था

3. आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था

4. आर्थिक अर्थव्यवस्था

Q.17 भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?

Ans 1. लैटेराइट मिट्टी

2. जलोढ़ मिट्टी

3. काली मिट्टी

4. लाल और पीली मिट्टी



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.18 बि. दोआब (Bist Doab) नहर प्रणाली और मङ्ग (Makhu) नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से सम्बंधित हैं?

- Ans 1. पंजाब
 2. असम
 3. उ.र.देश
 4. गुजरात

Q.19 कवी _____ में, एक सुपर टैकल (super tackle) तब होता है जब एक रेडर _____ या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है/स्वयं आउट हो जाता है/आउट घोषित कर दिया जाता है?

- Ans 1. छ.
 2. तीन
 3. चार
 4. पांच

Q.20 अप्रैल 2023 में, भारत के विदेश मीटिंग एस. जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस घाट के जीणीर के लिए पर योजना की शुरूआत की थी?

- Ans 1. ओम घाट
 2. मणिकर्णिका घाट
 3. चीर घाट
 4. तुलसी घाट

Q.21 _____ एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोर योग फर थे/थीं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक-नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली (fusion style) का सृजन करने के लिए जाना जाता था।

- Ans 1. रवि शंकर
 2. दता नागदेव
 3. शोभना नारायण
 4. उदय शंकर

Q.22 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों (Asian Game) में कितने देशों ने भाग लिया था?

- Ans 1. 11
 2. 24
 3. 16
 4. 20

Q.23 आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रांग पर (blank row) कैसे साझा लित कर सकते हैं?

- Ans 1. पर्सनल करें और कीबोर्ड पर इंसर्ट ((Insert) कुंजी (Key) दबाएं।
 2. पर्सनल का चयन करने के लिए माउस को पर्सनल बॉर्ड पर ड्रैग करें और होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट ((Insert) पर करें।
 3. पर्सनल करें और कीबोर्ड पर डिलीट (Delete) कुंजी (Key) दबाएं।
 4. पर्सनल करें और इंसर्ट (Insert) चुनें।

Q.24 9 अगस्त 2021 को, संसद ने सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 पार त किया था। इसने _____ में संशोधन किया था।

- Ans 1. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2016
 2. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2012
 3. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2004
 4. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)

CICK TO DOWNLOAD : SSC CHSL TIER-1 PDF NOTES

CHSL Exam 2024 Tier I (02-07-2024 - 5-15 PM - 6-15 PM)

Q.25 एरिक ए. कॉनल (Eric A. Cornell), वोल्फांग केटरले (Wolfgang Ketterle) और कार्ल ई. वीमन (Carl E. Wieman) को 1 र परमाणुओं की तनु गैसों में 'बोस-आइन्स्टीन संघनन (Bose-Einstein condensation)' पत करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरा र किस वर्ष में मिला था?

Ans

- 1. 2001 में
- 2. 2003 में
- 3. 2000 में
- 4. 2002 में



Download SSC CGL, CHSL E-BOOKS

[CLICK HERE](#)